

Schedule XLV-Form No. 134

Temporary Restoration of Road from
2042 kanchenburi To Palsai

RWD. Kishmuganj-2 **DIVISION**

RWD. Dighalbunck **SUB-DIVISION**

MEASUREMENT BOOK

NO. 1486

प्रमाणित किया जाता है कि इस माप पुस्त म कुल 100
(एक सौ) मुद्रित दोहरे पृष्ठ हैं। जो ~~११७~~ रुपये ५८/५
सहायक अधिकारी, ग्रामकांडिल कार्य अवार प्रमण्डल, ~~ग्रामकांडिल~~
के नाम से निर्गत किया जाता है:

कार्यपालक
ग्रामकांडिल
मुद्रित
२५/१२/५८

Sch. XLV—Form No. 134

RWD. Kishanganj-2 DIVISION
RWD. Dighalbank SUB-DIVISION

Measurement Book
No. 1456

Name of Officer _____

Date of first entry _____

Date of last entry _____

Name fo work—

1

Situation of work—

Agency by which work is executed—

Date of measurement—

No. and date of agreement.

(These four lines should be repeated at the commencement of
the measurements relating to each work.)

| Particulars | Details of actual measurement | | | | Contents of area |
|-------------|-------------------------------|----|----|----|------------------|
| | No. | L. | B. | D. | |

Name of work.— 1042 Kanchanbari

to Palpa, Roof Restoration Work

after flood damage

Agency — Departmental

Continuation

1) Provide bamboo Piling
do on C-job

| | | | | |
|---|----|---|-----|-------|
| 3 | 30 | 3 | 270 | |
| 1 | 15 | 3 | 45 | |
| 3 | 30 | 3 | 270 | |
| 1 | 15 | 3 | 45 | |
| 3 | 30 | | | |
| 3 | 30 | 3 | — | 270 m |
| 1 | 15 | 3 | — | 45 " |
| 3 | 30 | 3 | — | 270 " |
| 1 | 15 | 3 | — | 45 " |
| 3 | 30 | 3 | — | 270 " |
| 1 | 15 | 3 | — | 45 |
| | | | | 945 m |

Sch. XLV—Form No. 134

| Particulars | Details of actual measurement | | | | Contents of area |
|-------------|-------------------------------|----|----|----|------------------|
| | No. | L. | B. | D. | |
| | | | | | 945 m |
| 3 | 30 | 3 | — | — | 270 m |
| 1 | 15 | 3 | — | — | 45 m |
| 3 | 30 | 3 | — | — | 270 m |
| 1 | 15 | 3 | — | — | 45 m |
| 3 | 30 | 3 | — | — | 270 m |
| 1 | 15 | 3 | — | — | 45 m |
| 3 | 30 | 3 | — | — | 270 m |
| 1 | 15 | 3 | — | — | 45 m |
| 3 | 30 | 3 | — | — | 270 m |
| 1 | 15 | 3 | — | — | 45 m |
| 3 | 30 | 3 | — | — | 270 m |
| 1 | 15 | 3 | — | — | 45 m |
| 3 | 30 | 3 | — | — | 270 m |
| 1 | 15 | 3 | — | — | 45 m |

| | | | | | |
|---|----|---|---|---|--------|
| 3 | 30 | 3 | — | — | 270 m |
| 1 | 15 | 3 | — | — | 45 m |
| 3 | 30 | 3 | — | — | 270 m |
| 1 | 15 | 3 | — | — | 45 m |
| | | | — | — | 345 m |
| 3 | 30 | 3 | — | — | 90 m |
| 1 | 05 | 3 | — | — | 15 m |
| 3 | 30 | 3 | — | — | 270 m |
| 1 | 15 | 3 | — | — | 45 m |
| 3 | 30 | 3 | — | — | 270 m |
| 1 | 15 | 3 | — | — | 45 m |
| 3 | 30 | 3 | — | — | 270 m |
| 1 | 15 | 3 | — | — | 45 m |
| 3 | 30 | 3 | — | — | 270 m |
| 1 | 15 | 3 | — | — | 45 m |
| 3 | 30 | 3 | — | — | 270 m |
| 1 | 15 | 3 | — | — | 45 m |
| | | | — | — | 3570 m |
| | | | | | 4515 m |

Continuation

| Particulars | Details of actual measurement | | | | Contents of area |
|-------------------------------|-------------------------------|----|----|-----|------------------|
| | No. | L. | B. | D. | |
| | | | | B F | 4515m 3540m |
| 3 | 30 | 3 | — | — | 270m |
| 1 | 15 | 3 | — | — | 45m |
| 3 | 30 | 3 | — | — | 270m |
| 1 | 15 | 3 | — | — | 45m |
| 3 | 30 | 3 | — | — | 270m |
| 1 | 15 | 3 | — | — | 45m |
| 3 | 30 | 3 | — | — | 270m |
| 1 | 15 | 3 | — | — | 45m |
| 3 | 30 | 3 | — | — | 270m |
| 1 | 15 | 3 | — | — | 45m |
| 3 | 30 | 3 | — | — | 270m |
| 1 | 15 | 3 | — | — | 45m |
| 3 | 30 | 3 | — | — | 270m |
| 1 | 15 | 3 | — | — | 45m |
| 3 | 30 | 3 | — | — | 270m |
| 1 | 15 | 3 | — | — | 45m |
| 3 | 30 | 3 | — | — | 270m |
| 1 | 15 | 3 | — | — | 45m |
| 3 | 30 | 3 | — | — | 270m |
| 1 | 15 | 3 | — | — | 45m |
| 3 | 30 | 3 | — | — | 270m |
| 1 | 15 | 3 | — | — | 45m |
| 1 | 30 | 3 | — | — | 90m |
| 1 | 05 | 3 | — | — | 15m |
| 3 | 30 | 3 | — | — | 270m |
| 1 | 15 | 3 | — | — | 45m |
| 2 | 30 | 3 | — | — | 180m |
| 1 | 10 | 3 | — | — | 30m |
| | | | | | 7665m |
| 2) Prevalently Bamboo Runners | | | | | |
| 11 | 3 | 30 | | | 990m |
| 1 | 3 | 10 | | | 30 |
| | | | | | 1020m |
| | Continuation | | | | |

| Particulars | Details of actual measurement | | | | Contents of area |
|-------------|-------------------------------|----|------|------|------------------|
| | No. | L. | B. | D. | |
| | | | 4 ft | 3 ft | 1020 m |
| 11 | 3 | 30 | | | 930 m |
| 1 | 3 | 10 | | | 30 m |
| 1 | 3 | 30 | | | 90 m |
| 1 | 3 | 20 | | | 60 m |
| | | | | | 2190 m |

(3) Provide sand filling

Type (first class)

| | | | | |
|---|----|------|------|----------------------|
| 1 | 30 | 4.80 | 0.15 | 21.60 m ³ |
| 1 | 30 | 4.55 | 0.15 | 20.48 m ³ |
| 1 | 30 | 4.65 | 0.15 | 20.93 m ³ |

| | | | | |
|---|----|------|------|-----------------------|
| 1 | 30 | 4.60 | 0.15 | 20.70 m ² |
| 1 | 30 | 4.50 | 0.15 | 20.25 " |
| 1 | 30 | 4.25 | 0.15 | 19.13 " |
| 1 | 30 | 4.60 | 0.15 | 20.70 " |
| 1 | 25 | 4.70 | 0.15 | 17.63 .. |
| | | | | 161.42 m ³ |

(4) Providing Borehole

digging. do all c-slab

| | | | | | |
|--------------|---|-------|------|------|-------|
| At diversion | 1 | 30.00 | 4.80 | 0.40 | 57.60 |
| | 1 | 30.00 | 4.55 | 0.35 | 47.78 |
| | 1 | 30 | 4.65 | 0.45 | 62.78 |
| | 1 | 30 | 4.60 | 0.35 | 48.30 |
| | 1 | 30 | 4.50 | 0.30 | 40.50 |

Continuation

256.96 m

| Particulars | Details of actual measurement | | | | Contents of area |
|---|-------------------------------|--------------|-------|------|----------------------|
| | No. | L. | B. | D. | |
| | | 96 | BF | | 256.78m ² |
| | 1 | 30 | 4.25 | 0.45 | 57.38m ² |
| | 1 | 30 | 4.60 | 0.50 | 69.00m ² |
| | 1 | 26 | 4.70 | 0.40 | 47.00m ² |
| | | | | | |
| at washout | 1 | 30 | 5.80 | 0.80 | 139.20m ² |
| | 1 | 11.50 | 5.80 | 0.70 | 46.69m ² |
| | 1 | 30 | 4.00 | 0.20 | 24.00m ² |
| | 1 | 30 | 4.00 | 0.25 | 30.00m ² |
| | 1 | 30 | 4.20 | 0.30 | 37.80m ² |
| | 1 | 20 | 4.10 | 0.30 | 24.60m ² |
| | 1 | 24.10 | 4.20 | 0.30 | 30.37m ² |
| | | | | | |
| | 1 | 30 | 4.70 | 0.40 | 56.40m ² |
| | 1 | 30 | 4.70 | 0.40 | 56.40m ² |
| | 1 | 20 | 4.90 | 0.40 | 37.6m ² |
| | | | | | 913.4m ² |
| 5) Providing RCC N P3 H. Pipe do all C-Job | | | | | |
| | | 3 x 2 x 2.50 | | | 15.00m ³ |
| 6) Providing FC bag do all C-Job | | | | | |
| | 1 | 30 | 8.50 | 0.30 | 76.50m ³ |
| | 1 | 12.50 | 12.15 | 0.45 | 68.34m ³ |
| | 1 | 14.50 | 4.20 | 0.30 | 18.27m ³ |
| | 1 | 15.70 | 2.20 | 0.30 | 10.36m ³ |
| | 1 | 24.40 | 3.60 | 0.30 | 21.96m ³ |
| | | | | | 195.43m ³ |
| | | | | | Continuation |

@ 0.034 cum each bag = 5748 nos

1st
8/11/21
Tul
30/11/21
AE

| Particulars | Details of actual measurement | | | | Contents of area |
|--|-------------------------------|----|----|----|------------------|
| | No. | L. | B. | D. | |
| <u>Abstract of work</u> | | | | | |
| 1) Provide Bamboo filling do all C-Job | | | | | |
| vide TMB Pg(3) item(1) | | | | | |
| 57665m ² @ Rs 52.24 | | | | | Rs 4,00420= |
| 2) Provide dry Bamboo Rummur do all C-Job | | | | | |
| vide TMB Pg(4) item(2) | | | | | |
| 2190m ² @ Rs 27.71 | | | | | Rs 606882= |
| 3) provide sand filling do all C-Job | | | | | |
| vide TMB Pg(4) item(3) | | | | | |
| ④ 161.42 m ³ @ 514=43 | | | | | Rs 83039= |
| 4) Provide Broken Bat laying | | | | | |
| do all C-Job | | | | | |
| vide TMB Pg(5) item(4) | | | | | |
| 913.40 m ² @ Rs 2168.72 | | | | | Rs 1980909= |
| 5) Provide RCC NFB H.P @ 600m do C-Job | | | | | |
| vide TMB Pg(5) item(5) | | | | | |
| 15m @ Rs 1752.33 | | | | | Rs 26285= |
| 6) Provide E.C. lag with L-sand | | | | | |
| vide TMB Pg(5) item(6) | | | | | |
| 5748 m ² @ Rs 38.03 | | | | | Rs 218596= |
| → cold 121. C.I.T | | | | | 276993= |
| → 1 H. L. cess | | | | | 332392= |
| → S. fee | | | | | 27699= |
| | | | | | 121163 |
| | | | | | |
| Continuation | | | | | Rs 3251188= |

11
30/11/21
S.K.

Aud
30/11/21
AE

8/12/21
⑧/12/21